

Date: 04/02/2020

To,
The Listing Compliance Department,
BSE Limited,
P. J. Tower, Dalal Street,
Mumbai – 400 001

To,
The Listing Compliance Department,
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400051

Sub.: Newspaper publications given pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref.: PC Jeweller Limited (Scrip Code: 534809, Symbol: PCJEWELLER)



Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith the newspaper publications made by the Company pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on February 4, 2020 in Mint (English) and Hindustan (Hindi) regarding notice of meeting of the Board of Directors of the Company to be held on Thursday, February 13, 2020, inter-alia, to consider and approve the un-audited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2019.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For PC Jeweller Limited


(VIJAY PANWAR)
Company Secretary ★


Encl.: As above

PC Jeweller Limited

REGD. & CORPORATE OFF: C - 54, PREET VIHAR, VIKAS MARG, DELHI - 110 092 PH: 011 - 49714971 FAX : 011 - 49714972

info@pcjeweller.com • www.pcjeweller.com • CIN: L36911DL2005PLC134929

CENTURYPLY®
CENTURY PLYBOARDS (INDIA) LIMITED
CIN: L20101WB1982PLC034435

Regd. Office : P-15/1, Taratala Road, Kolkata - 700088; Phone: 033-39403950; Fax: 033-24015556;
Email: kolkata@centuryply.com; website: www.centuryply.com

Pawan Hans Limited
(A Government of India Enterprise)

WALK IN INTERVIEW

Pawan Hans Limited, a premier Central Public Sector Enterprise requires dynamic & result-oriented professionals on contract / consultant basis as under:-

Sl. No.	Post	No. of Posts	Location
1	Dy. Chief of Flight Safety	03	Delhi/Noida, Mumbai, Guwahati
2	Safety Manager	04	Delhi/Noida, Port Blair, Rajmundry & Lakshadweep
3	Manager (FOOA)	02	Delhi/Noida & Mumbai

Date	Venue	Registration Time
14 th February 2020	Pawan Hans Limited, Corporate Office, C-14, Sector-1, NOIDA-201301	10:30 AM to 12:30 PM

For complete details, please log on to Website: www.pawanhans.co.in

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter/nine months ended 31st December, 2019

PARTICULARS	STANDALONE					CONSOLIDATED						
	Quarter Ended 31.12.2019 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2019 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2018 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2018 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2019 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2019 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2018 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2019 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2018 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2019 (Audited)
1 Total Income from Operations	59,670.57	1,76,946.19	1,68,374.46	59,790.80	58,046.33	2,26,987.75	60,635.65	1,79,827.20	1,65,110.61	60,830.49	58,038.47	2,28,753.90
2 Net Profit from Ordinary Activities before tax	2,337.79	16,473.46	16,206.74	7,348.77	5,755.75	21,183.62	479.13	13,491.38	13,794.20	7,030.25	4,620.68	20,233.22
3 Net Profit from Ordinary Activities after tax*	1,908.90	11,937.26	12,460.22	5,218.81	4,141.23	15,875.98	37.55	8,901.51	9,344.97	4,872.51	3,013.20	14,887.14
4 Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit/Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	1,830.83	11,703.06	12,446.76	5,045.22	4,136.75	15,796.07	1,166.68	9,969.69	10,296.24	4,860.02	2,947.40	15,057.21
5 Equity Share Capital (Face value of ₹ 1/- per share)	2,225.27	2,225.27	2,225.27	2,225.27	2,225.27	2,225.27	2,225.27	2,225.27	2,225.27	2,225.27	2,225.27	2,225.27
6 Earnings Per Share for the period (Face value of ₹ 1/- per share)	0.86	5.37	5.61	2.35	1.86	7.15	0.02	4.01	4.21	2.19	1.36	6.68

* The Company does not have any Exceptional and Extraordinary item to report for the above periods.

NOTE:

- The above unaudited financial results for the quarter and nine months ended 31st December 2019 has been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at the respective meetings held on 3rd February 2020. The statutory auditors have carried out a limited review of these financial results. However, the consolidated comparative figures for the quarter ended 31st March 2019 and 31st December 2018 have been compiled by the management in accordance with the generally accepted accounting principles generally accepted in India and have not been subjected to review.
- The Company has adopted Ind AS 116 "Leases" effective from 1st April 2019 using the modified retrospective approach. This has resulted in recognition of a Right of use assets of ₹ 3530.42 lacs and lease liability of ₹ 3059.12 lacs as on 1st April 2019 and derecognition of prepayment of lease of ₹ 471.30 lacs. Further, expenses towards such leases is now recorded as depreciation on Right of use assets and finance cost on lease liability, instead of rent. Consequently, profit before tax for the quarter and half year ended is lower by ₹ 48.40 lacs and ₹ 145.20 lacs respectively.
- Consequent to restrictions on production of semi finished product by the Laos Government, the foreign subsidiaries including step down subsidiaries have recognised the impairment loss of ₹ 6,381.00 lacs on assets including inventories on the basis of recoverable value estimated by the management. Accordingly the company has recognised impairment loss of ₹ 4563.27 lacs on investment in a foreign subsidiary in its books of accounts after taking out share of impairment loss relating to non-controlling interest and same is reflected in segment results of Plywood and allied segment for the quarter and nine months ended 31st December 2019.
- The subsidiary Auro Sundram Ply & Door Pvt. Ltd. has acquired 100% holding in Asis Plywood Ltd. on 28th January 2020, which has become step down subsidiary of the company.
- The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.centuryply.com).

Date: 3rd February, 2020
Place: Kolkata

For Century Plyboards (India) Limited
Sanjay Agarwal
Managing Director

STL GLOBAL LIMITED
CIN: L5199DL1997PLC088667
Regd. Office : Unit No.111,
Block No.1, 1st Floor, Tribhuvan Complex,
Iktar Nagar, New Delhi-110065

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 & 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday the 12th day of February, 2020 at 11:00 A.M. at the Corporate Office of the Company at Plot No.207-208, Sector-58, Faridabad-151004, Haryana in order to discuss, take on record and approve, inter alia, the Un-Audited Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2019.

The notice is also available on the company's website at www.stl-global.com and on the Stock Exchanges website at NSE at www.nseindia.com and BSE at www.bseindia.com respectively.

For STL GLOBAL LIMITED
Date: 03.02.2020
Yashal Aggarwal
(Chairman & Managing Director)
DIN: 00226677

CAMAC COMMERCIAL COMPANY LIMITED
CIN: L7100DL1982PLC169318
Regd. Office: 1st Floor, Express Building, 34-10,
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Email: camacommercial@gmail.com
Website: www.camacommercial.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday February 12, 2020 at 11:00 AM at the Corporate Office of the Company at Plot No. 207-208, Sector-58, Faridabad-151004, Haryana in order to discuss, take on record and approve, inter alia, the Un-Audited Financial Results of the Company for the Quarter ended December 31, 2019.

The above information is also available on the website of the Company www.camacommercial.com and sent to the Catalysts Stock Exchange Ltd. By Order of the Board
For Camac Commercial Company Limited
Date: 03/02/2020
Surabhi Srivastava
(Company Secretary)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

CORRIGENDUM No. 01 (Tender ID No.: 2020_AAI_39792_1)
Tender No.: AAI/CNS-PT-11/2019-20

Tender Notice for "Supply, Installation, Testing & Commissioning (SITC) of HF Transmitters, HF Broad Band Antenna and Associated Accessories". Closing Date & Time for Downloading Expression of Interest (EOI) Documents has been revised to: 28 Feb, 2020 upto (1700 Hrs.). Opening Date & Time of Expression of Interest (EOI) proposals have been revised to: 28 Feb, 2020 upto (1700 Hrs.). For more information please visit CPP portal: <https://etenders.gov.in/eprocureapp> for further details.

Ref: 16/2019-20

LORDS CHLORO ALKALI LIMITED
(CIN : L24117U1919PLC002059)
Regd Office : SP-403, Matsya Industrial Area, Alwar-301030 (Rajasthan)
Phone: 011-46865999, 41627937; Fax: 011-46865930
Web: www.lordschloro.com; E-Mail: contact@lordschloro.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the Meeting of Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, 12th February, 2020 at 5:30 PM** at its Corporate Office A-284, 1st Floor, Defence Colony, New Delhi - 110024, inter-alia, for consideration, approval and publication of Un-audited Financial Results for the quarter ended on 31st December, 2019.

The said Notice may be accessed on the Company's Website i.e. www.lordschloro.com and may also be accessed at Stock Exchange Website www.bseindia.com.

By Order of the Board of Directors
For Lords Chloro Alkali Limited
Date: 03.02.2020
Dipendra Chaudhary
Company Secretary

PC Jeweller Limited
Regd. Off: C-04, Preet Vihar, Vihar Marg, Delhi-110002
Phone: 011-49714974; Website: www.pcjeweller.com
Fax: 011-49714972; E-Mail: investors@pcjeweller.com
Corporate Identity Number: L36911DL2005PLC134929

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, February 13, 2020, inter-alia, to consider and approve the un-audited standalone and consolidated financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2019.

In view of the same in terms of the Company's Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Insiders, Trading Window for trading in the shares of the Company has already been closed w.e.f. January 1, 2020 and shall remain closed till February 15, 2020.

This Notice is available on BSE Limited website (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited website (www.nseindia.com) and also on the Company's website (www.pcjeweller.com) under the Investors section.

For PC Jeweller Limited
Date: 03/02/2020
Sd/-
(Vijay Pawar)
Company Secretary

G-RIDE
Reg. office: 7th Floor, Block 06, Udyog Bhawan,
Gandhinagar-382017, Ph: 7932327328/23.
Email: transactions@gride.org.in
Website: www.gride.org.in

EXTENDER NOTICE

G-RIDE invites bids through E-tendering for Consultancy Services for Aerial LIDAR Survey by Helicopter/ Aircraft and Traffic Survey and Preparation of Alignment Corridor Report for Semi High Speed Rail Route (220kms) from Ahmedabad to Rajkot in the State of Gujarat (Tender ID : 396743). Interested parties may visit <https://www.procure.com> for eligibility criteria & more details about the bids.

- Director (Project & Planning), G-RIDE

New Okhla Industrial Development Authority
Administrative Building, Sector-6, Noida G.B. Nagar, (U.P.)
Website : www.noidaauthorityonline.com

CORRIGENDUM NOTICE
FOR COMMERCIAL SCHEME 2019-20 (फिरो-11)

A scheme for allotment 10 shops built up on Commercial Plot No A-321A/1, Sector-47, Noida was published in this newspaper on 16th January, 2020. The last date for submission of EMD was fixed as 31.01.2020 upto 5.00 PM. The scheme is further extended for 15 days as per schedule mentioned below:-

Online Submission/ Payment Closes on	14.02.2020 (EMD/E-brochure fee/Processing fee Deposited on or before 14.02.2020 by 5.00 PM will only be accepted)
List of Qualified e-bidders	Last date for E-bidding registration is 17.02.2020, 5.00 PM.
E-auction for built-up shops	List of Qualified e-bidders will be uploaded on the basis of the verification of payment of document download fee, processing fee, EMD and uploaded documents on 21.02.2020 which can be seen on the website www.noidaauthorityonline.com .
Allotment Letter	E-auction for plots will be done on 24.02.2020 from 11.00 AM to 2.00 PM.

After verification of related documents uploaded by the highest e-bidder, allotment letter to the successful highest e-bidder will be issued by Noida on 03.03.2020

Other terms and conditions of the scheme shall remain the same.

Officer on Special Duty-Commercial
CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA

King George's Medical University U.P.
Chowk, Lucknow, Uttar Pradesh, India-226003

Ref. No:20/Notice/EM/19 Date: 28.06.2019

Third Time Online bids are invited under two e-bids systems latest by 22.02.2020 the supply, installation, testing and commissioning & 5 Year Comprehensive Annual Maintenance of Passenger Lift and its related work PLASTIC SURGERY DEPARTMENT King George Medical University U.P. Lucknow, their authorized Company/contractor on the terms and conditions as per tender document & short details of the equipments, EMD & DD can be view of KGMU website. Tender will be available on tender-up.nic.in.

Executive Engineer
(Electrical/Mechanical Department)

MarkSoc, The Marketing Society of FMS, Delhi PRESENTS

FMS JAGDISH N. SHETH DISTINGUISHED SCHOLAR SERIES

Keynote Speaker

PROF. VENKATESH SHANKAR
Professor of Marketing, Director of Research at the Center for Retailing Studies at Mays Business School, Texas A&M University

Moderator

PROF. HARSH V VERMA
Professor of Marketing, FMS Delhi

Panelists

 ANAMIKA SIROHI Vice President, Marketing-Wellness, Amway India	 SIDDHARTH BANERJEE Director, Global Sales Organization, Facebook India	 NK PANDA Head, Convergence Business, Sterile Power & MD, MTCIL	 NIPUN MARYA Head of Marketing Strategy, Vivo India
---	--	---	---

Date: 7TH FEBRUARY, 2020
Time: 17:00-20:00 HOURS
Venue: SP JAIN AUDITORIUM, FMS, SOUTH CAMPUS

Contact Details: Varn Gupta- 8700325452, Devika Tolia- 9548343976

PERSONAL FINANCE

You are important to us. That's why our dedicated section on promising investments will help point your wealth in the right direction—up.



It's never too late to streamline your finances

To get your MINT copy, give a missed call on 7039035039 or visit www.mintreaders.com or write to us at subscription@livemint.com

mint

